#### **SANGAM FINSERV LIMITED**

(Formerly known as Suchitra Finance & Trading Co. Ltd.) CIN: L65910RJ1981PLC079945

REGD. OFF: B-10, Second Floor S.K. Plaza, Pur Road Bhilwara - 311001 Rajasthan Tel. No.: 01482-796146; Email id: <u>Suchitra@sangamgroup.com</u>; Web: www.sftc.co.in

Date: 27th May, 2025

To,

The Listing Department, The Secretary,

BSE Limited, The Calcutta Stock Exchange Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 07, Lyons Range,
Dalal Street, Kolkata – 700001
Mumbai- 400001 Scrip Code: 29400

Scrip Code: 538714

<u>Sub: Submission of Clipping of Audited Financial Results for the Year ended 31st March 2025</u>

#### Dear Sir/Madam,

With reference to Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements ) Regulation, 2015 ('Listing Regulation"), we are enclosing herewith Newspaper Cuttings of Audited Financial Results for the Year ended 31st March 2025 published in the following Newspaper:

- 1. Financial Express (i.e. English Newspaper) dated 27th May, 2025
- 2. Dainik Parthakal (i.e. Hindi Newspaper) dated 27th May, 2025

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours Faithfully

For Sangam Finserv Limited

(Ankit Mundra) Company Secretary Mem. No.: A67949

Encl: As above

Can Fin Homes Ltd

# CAN FIN HOMES LTD. Shop No.-4, 4th Floor, S.L. Tower, Near Bank of Maharashtra, Commercial Belt, Alpha-1, Greater Noida (U.P.) Pin-201308 CIN: L85110KA1987PLC008699, E-mail: greaternoida@canfinhomes.c

Mobile No. 7625079164, 0120-4569974 POSSESSION NOTICE [Rule 8 (1)] [For Immovable Property] The undersigned being the Authorized Officer of Can Fin Homes Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 03/03/2025 calling upon the

borrower Mr. Mahesh and Reena to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 18,30,813.00 (Rupees Eighteen Lakhs Thirty Thousand Eight Hundred Thirteen Only) with further Interest at contractual rates, till date of realization within 60 days from the date of the said notice. The borrower's having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower's and the public in general that the undersigned has taken possession of the property

described herein below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 22nd day of May of the year 2025. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the

Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

The borrower's in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Can Fin Homes Limited for an amount of Rs. 18,30,813.00 (Rupees Eighteen Lakhs Thirty Thousand **Eight Hundred Thirteen Only)** and Interest thereon.

**SCHEDULE OF THE MORTGAGED PROPERTY** FLAT NO. A-53. Brahmpura Alias Bhopura. Ghaziabad 201005

**BOUNDARIES OF THE PROPERTY ARE AS UNDER** North: As Per Sale Deed, South: As Per Sale Deed East: As Per Sale Deed, West: As Per Sale Deed

> Sd/-. **Authorised Officer**, Can Fin Homes Ltd.



Date: 26.05.2025

Place: Greater Noida

# : 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park, Gancetrao Kadam Maro, Lower Parel, Mumbai 400013 Brach Address: B-36, 1st & 2nd Floor, Above HDFC Bank, Laipat Nagar 2, New Delhi - 110024

"Notice is hereby given to the public in general and in particular to Mr. PUNI KUMAR (Borrower), and Ms. SANTOSH KUMARI (Co-borrower (s) /Guarantor/s) and their legal heirs/representatives, that the Authorised Officer of TATA Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), by following due procedure under SARFAESI Act 2002, has taken the Physical Possession of the Immovable Property, more particularly described in Schedule A below, as mortgaged with TCHFL. Despite giving several notices you have failed/ neglected to remove inventory lying in the said premises. Hence, vide this notice you are given last chance to remove the inventory lying in the Immovable property within 07 (Seven) days from the date of publication of this notice, failing which the Authorised Officer shall proceed with disposal of the inventory according to merit. The Authorised Officer and TCHFL shall not be held responsible for the same. Please note that we have identified the buyer for selling the lying inventory at the property, there is no response from your side we will dispose of the property to recover our dues.

LOAN ACCOUNT NO: 9698630 & 9917392 & 9743866

### SCHEDULE - A

All That Property being Third Floor with roof right Part of free hold built up propert bearing No. B-66, area measuring 75 Sq.yds., out of Khasra No. 441, Situated in the area of Village- Saleempur Mazra- Madipur, Delhi, Colony Known as Rishi Nagar, Shakur Basti, Delhi-110034, more particularly mentioned in the Sale Deed registered as Document No. 8221 on 17/07/2015 in the Book No.1, Volume No. 5784 on Page No.113 to 118, with Sub Registrar- VI A, New Delhi. All That of Second Floor without Roof Right part of free hold Built up property Bearing No B-66, Area Measuring 75 Sq.Yds., Out of Chasra No. 441, Situated in the Area of Village- Saleempur, Mazra- Madipur, Delhi Colony Known as Rishi Nagar, Shakur Basti, Delhi-110034, with common passage and common staircase of the property mentioned in sale deed, dated 16/11/2016.

DATE :- 27.05.2025 Sd/- Authorised Officer For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED PLACE:- DELHI



UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD Registered office at: Unit 2009-14, 20th Floor, Tower –2, Magnum Global Park, Golf Course Extension Road, Sect-58, Gurugram (Haryana)-122011") CIN:U65922HR2016PTC057984. **DEMAND NOTICE U/S(13)2 SARFESI ACT** 

As the loan account become NPA therefore Authorised officer u/s 13[2] the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 had issued 60 days demand notice to Borrower/Applicant/Guarantor/Mortgagoras given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the entire amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of mortgage property/secured assets mentioned below. Therefore, the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with the future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice otherwise under the provision of 13[4] and 14 of said act, the Authorised officer is taking possession for sale of the mortgage property/secured assets as given below. 2002, Borrowers to take note that after receipt of this notice in terms of 13[13] of the act you are prohibited and restrained from the transferring any of the secured assets by way o

sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor. Borrowers' attentions are attracted towards sec-13[8] R/W rule 3[5] of the security nterest (enforcement) Rule 2002 Act that the borrower shall be entitled redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned belov before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist

Sr. No.	Name Of Borrower/ Applicant /Guarantor /Mortgagor	Date And Amount Of Dem Notice U/S 13[2]

1. Deepak Kashyap S/o Krishna Pal (Borrower)
2. Akash Kashyap S/o Krishan Pal (Co-Borrower)
3. Deepa Devi W/o Deepak Kashyap (Co-Borrower)
All Above Residing At-Gupta Market, Muradgram Pur Pursi, Muradnagar, Ghaziabad, U.p-201206
Loan No - LXSAH04222-230023731

Loan Agreement Date: 29-Mar-2023

12-May-2025 Rs.1,084,434/-(Rupees Ten Lacs Eighty Four Thousand Four Hundred Thirty Four Only) As On 12-May-25 + **Further Interest And Other Charges From The Date** 

12-May-2025

Rs.1,298,367/-(Rupees

**Twleve Lacs Ninety Eight** 

**Thousand Three Hundred** 

Sixty Seven Only) As On 12-

May-25 + Further Interest

And Other Charges From The

Date 13-May-2025

Loan Amt Rs:1,110,000/-13-May-2025 **DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY:** All That Part And Parcel Of Property Having Area Measuring 97.55 Sq. Yrds. I.e 81.56 Mtrs. Out Of Khasra No. 451 Mi. Situated I The Village Of Muradgrampur, Purshi, Pargana, Jalalabad & Tehsil Modi Nagar, District Ghaziabad, U.p. Bounded As North- Others House, South-Rasta 12' Ft. Wide, East- House Of Saroj, West-Rasta 12' Ft. Wide

2. 1. Devindra S/o Shyam Veer Singh (Borrower)
2. Tej Pal Singh S/o Shyam Beer Singh (Co-Borrower) 3.Seema Kumari W/o Devindra (Co-Borrower)
All Above Residing At-D3 259 Nand Nagari East
Delhi, Delhi-110093 Also At- B-4/189, Nand Nagri,

Loan No - LXLAX02923-240028032 Loan Agreement Date: 28-Feb-2023 Loan Amt Rs:1260.000/-

**DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY**: All That Part And Parcel Of Property Having Area Measuring 50 Sq. Yrds, I.e. 41.80 Sq. Mtrs., Built-Up First Floor Without Roof Rights, Bearing Property No. C- 269, Out Of Khasra No. 377, Situated At Village Ghonda, Gujran Khadar In The Abadi Of C Block, Gali No. 11, Bhajanpura, Illaqa Shahdara, Delhi-110053, **Bounded As East**-Property No. C-269, **West**-Property No. C-268, **North**-Property Of Other South-Gali 11 Feet Wide.

Date: 27-May-2025 Authorized Officer, Mr. Gaurav Tripathi Mobile- 965005570 UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD. Place: Gurugram

# PUBLIC NOTICE

#### (Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SMT POONAM KUMRA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Delhi Bench under section 94 has ordered the commencement of insolvency resolution process against Smt. Pooriam Kumra. Residing in C-96, 1st Floor, Sector – 54, Suncity, Gurgaon, Haryana 122018 on 16.05.2025 (Date of receipt of order 23.05.2025) vide its order CP (IB) No. 198/ND/2023.

The creditors of Smt. Poonam Kumra., are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13.06.2025 (21 days from 23.05.2025) to the resolution professional at D-71, India bulls Enigma, Sector -110, Dwarka Expressway, Gurugram, Haryana- 122017 and through email to Pg.pkumra@gmail.com,

The creditors may submit their claims by electronic means, or through Courier, or speed post or

ogs	stered Post or by fland delivery.	
3,	PARTICULARS OF PERSON	AL GUARANTOR SMT POONAM KUMRA
1.	Name of personal Guarantors	SMT PODNAM KUMRA
2,	Address of the personal Guarantors	C-96, 1 <sup>st</sup> Floor, Sector –54, Suncity, Gurgaon, Haryana 122018
3.	Insolvency commencement date	16.05.2025 (Date of order) 23.05.2025 (Date of receipt of order)
4.	Estimated date of closure of Insolvency Resolution process	13,09.2025 (120 days from 16.05.2025)
5.	Last date for submission of claims	13.06.2025 (21 days from 23.05.2025)
2.0	Details of the	Resolution Professional
6.	Name and registration number of the insolvency professional acting as resolution professional	Veenu Drall IBBI/IPA-001/IP-P02504/2021-2022/13816
7.5	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Registered Address: 13 G, Vikrant Apartments, Sector 13, Rohini, New Delhi-85 Registered Email ID: ipveenudrati@gmail.com
8.	Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional	Address: D-71, India bulls Enigma, Sector -110, Dwarka Expressway, Gurugram, Haryana- 122017

Please note that submission of any false or misleading proof of claim shall attract penal consequences under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") as well as any other applicable laws

Furthermore, in accordance with Section 101 of the Code, a moratorium has been imposed with immediate effect, which shall remain in force until the completion of the insolvency resolution process, As per Section 101(2), during the moratorium period, any pending legal action or proceeding in respect of any debt shall be deemed to have been stayed, and no creditor shall initiate any legal action or proceeding in respect of any debt.

You are requested to take due note of the same and file your claim before 13.06.2025, if any. Veenu Drall Resolution Professional

Date: 27.05.2025 Place: New Delhi

IBB Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P02504/2021-2022/13816 AFA Vailidity- 31.12.2025

Email ID: Pg.pkumra@gmail.com,

### **USS GLOBAL LIMITED**

Regd office: Office No. 400, ITL Twin Towers, B-9, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi 110034 Phone: 011: 45824477, website: www.ussgloballtd.com E-mail: cs.ussglobal@gmail.com CIN: L74900DL1993PLC056491

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QTR AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

		(Rs. In Lakhs	except earnin	gs per share)
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	91.50	107.78	40.14
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	79.88	74.11	12.55
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or			
	Extraordinary Items)	79.88	74.11	12.55
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or			
	Extraordinary items)	60.61	54.41	(7.08)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the			
	period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	60.61	54.41	(7.08)
6	Equity Share Capital	1002.00	1002.00	1002.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance			
	Sheet of the previous year	416.26	416.26	361.85
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			

#### 2. Notes:

Basic:

Diluted:

Place: New Delhi

Date: 26-05-2025

A) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Fourth quarter and year ended 31st March, 2025 filed with the Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Quarterly Audited Financial Results is available on the Stock Exchange website www.msei.in and on the company's website www.ussgloballtd.com.

B) The above Audited Financial Results for the Fourth quarter and year ended 31st March,2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors of the company at their Board Meeting held on 26th May, 2025. The Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2025 have been audited by the Statutory Auditor of the company

> On Behalf of the Board of Directors For USS Global Limited

0.54

0.54

-0.07

-0.13

0.60

0.60

Sd/-**Mohit Gupta Managing Director** (DIN: 02366798)

# SANGAM FINSERV LIMITED

(Formerly known as Suchitra Finance & Trading Co. Ltd.)

Reg off: B-10, 2nd Floor, S K Plaza, Pur Road, Bhilwara - 311001, Rajasthan Corp.Off.: B/306-309, Dynasty Business Park, Opp. Sangam Cinema, Andheri(E), Mumbai-400 059 Tel No.:,01482-796146, Email id: suchitra@sangamgroup.com, www.sftc.co.in, CIN No. L65910RJ1981PLC079945

Extract of Statement of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 (Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	3 months ended 31/03/2025	Preceding 3 months ended 31/12/2024	Corresponding 3 Months ended 31/03/2024 in the previous year	Year ended 31/03/2025	Previous Year ended 31/03/2024
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	90.97	693.89	470.17	1,701.48	1,857.82
2	Net Profit (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(166.72)	470.30	174.28	920.32	1,059.61
3	Net Profit before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(166.72)	470.30	174.28	920.32	1,059.61
4	Net Profit after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(170.77)	362.48	127.84	659.72	790.35
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(171.02)	362.48	129.23	645.29	786.50
6	Equity Share Capital	4,661.28	932.25	932.25	4,661.28	932.25
7	Other Equity				8,658.88	11,780.69
8	Earnings Per Share (Before and after extraordinary item) (of Rs. 10/- each)					
	1. Basic (In Rs.):	-0.37*	0.78*	0.27*	1.42	1.70
	2. Diluted (In Rs.):	-0.37*	0.78*	0.27*	1.42	1.70

#### \*not Annualised Note:

Place: Bhilwara

**Date: 26th May, 2025** 

. The above results which are published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulation 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 26th May, 2025. The financial results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant Rules thereunder. These results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company. The full format of the Financial Results are available on the Website of the Stock Exchange and on Companies Website www.sftc.co.in

2. Figures to the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to correspond with the figures of the current period.

3. The Company has allotted 37290200 Bonus equity shares of Re. 10/- each in the ratio 4:1 to the exsiting shareholders on 7th Feb, 2025. FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR

FOR SANGAM FINSERV LIMITED

Sd/-**Ankit Mundra Company Secretary** 

# **BAJAJ FINANCE LIMITED**



Registered Office: Bajaj Finance Limited, C/o Bajaj Auto Limited Complex Mumbai Pune Road Akurdi Pune 411035 Corporate Office: Bajaj Finance Limited, Off Pune-Ahmednagar Road, Viman Nagar, Pune – 411014 Branch Office: Bajaj Finance Ltd. 1st Floor, Dixit Tower, Scf 33, Urban Estate Huda, Opp Jatt Dharmashala, Jind -

Authorized Officer's Details: Name: Deepak Nayak, Legal Manager, Bajaj Finance Limited Email ID: deepak.nayak1@bajajfinserv.in, Mob No. +91 8383021225

**APPENDIX-IV-A** [See proviso to rule 8 (6)]

Sale of Immovable Assets Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrowers/Co-borrowers/Mortgagor(s) in respect of below mentioned secured asset which is mortgaged with Bajaj Finance Limited ("BFL'), and possession of which had been taken by undersigned Authorised Officer of BFL under the provisions of the ACT will be sold by Auction for recovery of the amount mentioned hereunder and further applicable interest, charges and costs etc.. The secured asset described below is being sold on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS AND WHATEVER THERE IS" under Rule No. 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules ("the Rules") for recovery of the dues detailed as under:

e-Auction Sale Notice Under SARFAESI Act 2002

**Particulars of E-auction** 1.Pawan Kumar S/o Sh. Jagdish R/o. 746/28 Bhiwani Road Sharma Nagar Jind Haryana 126102 Also At R/o. Khevat No. 187 Khatoni No. 265 Murba No. 22 Kill No.4 Vaka Rakba Gobindpura Hall Vikash Nagar Colony Teh. And Dist. Jind 126102 2. Geeta Rani W/O Om Prakash R/o. 746/28 Sharma Nagar, Ward No. 28 Bhiwani Road, Jind Haryana 126102 3.Ompati Devi W/O Jagdish Chander R/o. 746/28 New Sharma Nagar Bhiwani Road S K Senear Name & Address of Borrower School K Bhind Jind Haryana 126102 4.Garima Furniture Thr. Its Prop. R/o. Garima Furniture Rohtak Road Byepass Near Maruti Agency Jind Haryana 126102 Contact 9068961292 Email: pkjangrasrk786@gmail.com Also At R/o. 746/28 Bhiwani Road Sharma Nagar Jind Haryana 126102 Also At R/o. 818/31 Gali No. 2 Bhupender Nagar Jind Haryana 126102 Contact- 9068961292 Email- pkjangrasrk786@gmail.com; pawan1987@gmail.com P5N8PBL4079573 & P5N8PFB7106210

Loan Account Number Statutory Demand Notice u/s. Notice dated 18.03.2024 Demand amount Rs. 26,37,081/-13(2) Date & Amount Outstanding Amount as on Rs. 27,01,368.05/- (Rupees Twenty Seven Lakhs One Thousand Three Hundred Sixty Eight and Five Paisa Only) for LAN P5N8PBL4079573 and Rs. 7,69,401.05/- (Rupees Seven Lakhs Sixty Nine Thousand Four 26.05.2025 Hundred One and Five Paisa Only) for LAN P5N8PFB7106210 Description of Immovable All That Piece And Parcel Of Residential Property Situated At Khevat No. 187 Khatoni No. 265 Murba No. 22 Kila No.4. Situated At Gobindpura, Vikas Nagar Colony, Bhiwani Road Teh, And Dist, Jind 126102 Alongwith Property Proportionate Share In Common Areas (Area: 130 Sq. Yards) Bounded as: On East- Plot Of Jaswant Sold By Bhan Ram 47'-0"; On West- Plot Of Satyanaran 47'-0"; On North- Gali 20' Wide 25'-0"; On South- Plot Of Reserve Price in INR Rs. 29,04,433/- (Rupees Twenty Nine Lakhs Four Thousand Four Hundred Thirty Three only) Rs. 2,90,443/- (Rupees Two Lakhs Ninety Thousand Four Hundred Forty Three only) E-auction date and time 28/06/25 11:00 am to 1:00 pm

Bid Increment Amount in Rs. Rs. 25,000/-Encumbrance Known to Secured Not Known From 28/05/25 to 27/06/25 on working day between 9.30 AM to 5 PM with Prior appointment Date of Inspection of Property Public in General and Borrowers in particular please take notice that if in case auction on date scheduled herein fails for any reason whatsoever then secured creditor may enforce security interest by way of sale through private treaty, at the discretion on of the secured creditor. For

https://bankauctions.in

detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link https://bankauctions.in and https://www.bajajfinserv.in/auction-notices

Authorised Officer, Bajaj Finance Ltd. Place : Pune, Dated : 26.05.2025

# LANDMARK Landmark Property **Development Company Limited**

Regd. Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi -110 001 [CIN: L13100DL1976PLC188942] Telephone No.: 91 43621200 Fax: (011) 41501333 Website: www.landmarkproperty.in E-mail: info@landmarkproperty.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

		Quarte	r ended	Year	ended
S No	PARTICULARS	Rs/Lakhs 31-Mar-25	Rs/Lakhs 31-Mar-24	Rs/Lakhs 31-Mar-25	Rs/Lakhs 31-Mar-24
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income	15.34	44.33	176.58	172.62
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax & Exceptional Items)	0.27	(1,195.97)	(356.50)	(1,159.68)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	0.27	(1,195.97)	(356.50)	(1,159.68)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	4.59	(1,201.16)	(372.15)	(1,172.05)
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period (after tax and Other Comprehensive Income (after tax)	(4.42)	(1,201.09)	(372.25)	(1,171.98)
6	Equity Share Capital(Face Value of Re. 1/- each)	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	100	13	2,655.12	3,027.37
8	Earnings Per Shares (Face Value of Re. 1/- each) (not annualised) (a) Basic (in Rs.) (b) Diluted (in Rs.)	(0.00) (0.00)	(0.90) (0.90)	(0.28) (0.28)	(0.87) (0.87)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Annual Financial Results is available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.landmarkproperty.in

For Landmark Property Development Company limited

Gauray Dalmia

Place: New Delhi Date: 26.05.2025

Managing Director



Regional Office: 1st Floor, B.D.A. Complex, Priyadarshani Nagar, Bareilly (U.P.) - 243122

# E-AUCTION SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the

	19	SCHEDULE OF THE SECURED	ASSETS		
Sr. No.	Hame & Addresses of the	Description of the Immovable Secured	O/A as per	Reserve Price EMD/BID	E duction
	Borrower, Co-applicant & Guarantors	Assets to be sold	Demand Notice Amount + Interest	Increment Amount	Date & Time
1.	Borrowers: 1. M/S Noor Handloom	EM of Property at Part of Khasra No- 254 & 255 situated at	Rs. 20,33,874.75	Rs. 94.50/- Lakh	13.06.202 12:00 PM
	Industries, Prop:- Mr.	Mohalla Gyaspur, Pargana + Tehsil Bisalpur, Distt- Pilibhit. Property is in name of Smt. Rehana Begum W/O Shri Noor Ahmad. Total extent of property is 0.60 Acre and Value of property is Rs. 126.19 Lakh as per valuation report dtd	(Rupees Twenty Lakh Thirty- Three Thousand Eight Hundred Seventy-Four and Paise Seventy-Five	Rs. 9.45/- Lakh	to 5:00 P.M.
	BRANCH: ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY	30.03.2018. Boundaries of property as on date of valuation are as: East: Plot of Rehana Begum, West: Khasra No-252,253,257, North: House	interest and		

No-252,253,257, North: House of Rafiq and Siddqui, South: Shahjahanpur Road. 2. Borrowers: All that part and parcel of the Rs. 29.70/-13.06.2025 Lakh 12:00 PM Mohd Arif Ali S/o property consisting of 13,82,584.00/ Rs. 2.970/ Mukhtayar Ahmad, R/o Residential property at Khasra to (Rupees 5:00 P.M. Lakh H. No.7, Chak Mahmood, no. 17 situated at Mohalla Chak Thirteen Lakh Lodhi Tola, Old City, Mahmood, Distt Bareilly, UP, Eighty-Two Bareilly U.P. admeasuring area of the Thousand Five Mr. Mukhtayar S/o property 188.12 sqmt owned Hundred Achchan, R/o H. No.7, by Mr. Mukhtayar S/O Achchan, Eighty-Four Chak Mahmood, Lodhi Bounded as: East: Plot of seller only) & Interest Tola, Old City, Bareilly U.P. after that khet of others, West: thereon. Rasta 20 ft wide, Guarantors: Mohammad Afzaal S/o Mohd. Shakeel, R/o 386 Ahmad Ali ka Talab infront of Gappu Wali Gali Shyamganj, Bareilly, U.P. Mr. Imran S/o Abbas, R/o

H. No. 60, Lodhi Tola, Baradari, Bareilly, U.P. **BRANCH: ROHILKHAND** UNIVERSITY, BAREILLY Plot no. 24 (Part of Gata no. Borrowers: Rs. 8.61/-13.06.2025 1. M/S Kanchan 895) situated at village 12,61,141.70/-Lakh 12:00 PM Enterprises, Plot. No. 24, Salempur, Tehsil Lakhimpur (Rupees Twelve) Rs. 0.861/ Lakh 5:00 P.M. Vill. Salempur, Meerpur, Kheri, Distt Kheri on Teshil and Distt:- admeasuring area 94.172 sq Lakhimpur Kheri U.P. mtr (1013.3 Sq fit) in the name hundred fourty 2. Mrs. Kanchan of Smt. Kanchan Keshwani W/o one and Keshwani W/o Sri|Sri Gopaldas Keshwani, seventy paisa) plus further Gopaldas Keshwani, H. bounded as: Property is No. 109, Bahadur Nagar, bounded as: East: Land No. 25 interest from Lakhimpur Kheri U. P. 01/03/2024 of seller, West: Land no. 23 of BRANCH: LAKHIMPUR seller, North: Land of Others, and dummy KHIRI MAIN South: Road 5.782 mt wide. interest and other charges

TERMS AND CONDITIONS: The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:

 The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". The particulars of Secured Assets specified in the Schedule here in above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error,

misstatement or omission in this proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned through Web portal/website http://baanknet.com

 For detailed term and conditions of the sale, please refer http://baanknet.com or www.unionbankofindia.co.in For further details, Please contact above mentioned branch.

Last Date for submission of EMD-on or before the commencement of day of E-Auction.

Place : Bareilly, Lakhimpur Khiri Authorised Officer, Union Bank Date: 27.05.2025

THE BUSINESS DAILY

E- auction Portal

**♦ FINANCIAL EXPRESS** 

Last date of submission of EMD 27/06/25

FOR DAILY BUSINESS





New Delhi



#### सार समाचार

### प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर होगी काव्य निशा

राजसमंद ( प्रात:काल संवाददाता )। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485 वीं जयंती पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद और काव्य गोष्ठी मंच द्वारा आगामी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की पूर्व संध्या पर 28 मई को समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। काव्य गोष्ठी मंच के अध्यक्ष सतीश आचार्य ने बताया कि राजसमंद जिला महाराणा प्रताप की जन्म स्थली और कर्मस्थली है उनके आदर्शों को साहित्य के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने और उन्हें काव्यांजलि अर्पित करने हेतु काव्य निशा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने को लेकर आयोजित एक बैठक में कार्यक्रम की योजना को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में कवि सूर्य प्रकाश दीक्षित, सतीश आचार्य, एडवोकेट ललित साहु, राजकुमार शर्मा राज, गोपाल शर्मा, यशवंत शर्मा, चंद्रशेखर नारलाई, हनीफ शेख रिजवी, राहुल दीक्षित मौजूद थे।

#### तीन दिवसीय गायत्री माता मंदिर मेला प्रारंभ

चित्तौड़गढ़ (प्रात:काल संवाददाता)। लाखा का खेड़ा में गायत्री माता मंदिर का तीन दिवसीय मेला सांसद सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य एवं भूमि विकास बैंक अध्यक्ष बद्रीलाल जाट, रणजीत सिंह भाटी, कमलेश पुरोहित, राजकुमार सुखवाल, हर्षवर्धनसिंह रूद के विशिष्ठ आतिथ्य में प्रारम्भ हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में सत्यनारायण विजयवर्गीय, रूपलाल बंजारा, विजय बंजारा, किशन बंजारा, भेरूलाल शर्मा, मनीष जैन, गोटू बंजारा, महेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान सांसद जोशी ने मातेश्वरी सेवा समिति के निरंतर समाज सेवा, खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया। भगवा ध्वज परिवर्तन कर अखाड़े के साथ निकलने वाली विशाल कलश यात्रा का सांसद द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूरणमल, बद्रीलाल सालवी उपस्थित रहे। नारायण गुर्जर की ओर से भजन संध्या का आयोजन हुआ। मेले में मातेश्वरी सेवा समिति के संस्थापक रमेश शर्मा, नरेंद्र सिंह राणावत, राजकुमार सुवालका, मनीष जैन, भेरूलाल शर्मा एवं समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अंतिम दिवस आज मेला कमेटी की ओर से रंगारंग कार्यक्रम होंगे।

#### शनिधाम में शनि जयंती पर विविध धार्मिक अनुष्ठान आज



कपासन ( प्रात:काल संवाददाता )। उपखंड क्षेत्र कपासन के आली गांव स्थित मेवाड के प्रसिद्ध तीर्थस्थल शनिमहाराज में मंगलवार को शनि जयंती के अवसर पर विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। शनिमहाराज मंदिर प्रबंधकारिणी कमेटी के सचिव कालुसिंह चौहान ने बताया कि शनि जयंती के अवसर पर मंगलवार सुबह नौ बजे विशेष पुजा अर्चना एवं हवन-यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कमेटी की ओर से एक क्विंटल शक्कर से निर्मित बूंदी के प्रसाद का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाएगा। शनिमहाराज में व्यवसायरत व्यापारियों की ओर से छप्पन भोग का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान शनिदेव के समक्ष छप्पन भोग की झांकी सजाई जाएगी तथा श्रद्धालुओं में

# पांडूक शिला पर बिराजे शांतिनाथ, शांतिधारा कर चढ़ाए निर्वाण लड्डू

## भगवान शांतिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव पर विभिन्न अनुष्ठान, निकाली शोभायात्रा



सागवाड़ा (प्रात:काल संवाददाता)। नगर के श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन, सोनियाजी के मंदिर में जैन आगम की वर्तमान चौबीसी के सोलहवे तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक तथा मोक्ष कल्याणक महोत्सव सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा प्रतिष्ठाचार्य पंडित विनोद उर्फ विरल पगारिया के तत्वावधान में सोमवार को विविध आयोजन के साथ मनाया गया। महोत्सव को लेकर 26 मई सोमवार को प्रात: मंगलाष्ट्रक, भूमि शुद्धि के बाद सेठ महेश नोगमिया द्वारा शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को पांडूक शिला पर स्थापित कर जलाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान का विभिन्न द्रव्य पूरित कलशों से पंचामृत अभिषेक किया। मलनायक भगवान की प्रतिमा पर प्रतिष्ठाचार्य विनोद पगारिया के मंत्रोच्चारण के साथ वैभव पवन कुमार गोवाड़िया द्वारा तथा पांड्रक शिला मे विराजित प्रतिमा पर जपेश, निलेश पुत्र कनकमल शाह द्वारा विश्व शांति कामनार्थ शांतिधारा की गई। शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक मौके पर डॉ. विपिन राजमल शाह द्वारा निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। प्रमोद संघवी द्वारा आरती उतारी गई। सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, पंच मंगल कलश स्थापना, अखंड दीप प्रज्जवलन के बाद नवदेवता पुजा की के बाद श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के तहत इन्द्र इन्द्राणी समूह द्वारा 125 अष्ट द्रव्य श्रीफल युक्त अर्घ समर्पित एवं महाअर्घ और शांतिपाठ विधि के साथ विधान संपन्न हुआ। इस अवसर पर ट्रस्टी अश्विन बोबड़ा, दिनेश मेहता, प्रदीप दोसी, रमेश गांधी, प्रवीण सेठ चंद्रकान्त शाह, लोकेश भरड़ा, प्रतीक, भाविक शाह, महेन्द्र शाह, चंद्रशेखर संघवी, नटवर लाल गलालिया, महावीर पालविया समेत अनेक श्रद्धाल

सिद्धी रेजीडेन्सी में निकाली शोभायात्रा नगर के डुंगरपुर रोड स्थित सिद्धि रेजीडेन्सी में सकल दिगम्बर जैन समाज द्वारा नवनिर्मित शांतिनाथ जिनालय में प्रथम बार भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव सोमवार को प्रात: धूमधाम से मनाया। मंदिर व्यवस्था समिति अध्यक्ष गिरिश शाह ने बताया कि इस अवसर पर प्रात: मूलनायक शांतिनाथ भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। प्रतिमा पर शांतिधारा विद्या देवी तथा कुलदीप जैन द्वारा किया गया। मंदिर से शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को गंधकुटी पालकी मे विराजित कर बैंड बाजों के साथ शोभायात्रा निकाली गई जो सिद्धि रेजीडेंसी के मुख्य द्वार पहुंची। वहां से पुन: मंदिर पहुंचने पर भगवान की आरती उतारी गई। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

ड्रंगरपुर । सोमवार को शान्तिनाथ भगवान के जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक के मौके पर प्रगति नगर मंदिर में पंचामृत अभिषेक, शांतिधारा, शांति विधान एवं निर्वाण लड्ड चढाने का आयोजन पंडित निलेश डेंडू के सानिध्य में एवं प्रगतिनगर समाजजनों की उपस्थिति में बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। सौधर्म इंद्र, पंचामृत अभिषेक एवं निर्वाण लड्डू चढ़ाने के लाभार्थी विनय कुमार स्व. खूबचंद पंचोली भासोर वाले रहे। शांतिधारा के लाभार्थी लक्ष्मीचंद भेरजी तोरावत रामगढ़ वाले रहे। प्रभावना वितरण लक्ष्मीचंद तोरावत एवं विनयकुमार ने की।

सीमलवाड़ा। धर्म नगरी पीठ में भगवान शांतिनाथ में जन्म, तप एवं मोक्ष कल्याणक के अवसर पर समाज द्वारा भगवान का जन्माभिषेक, पजन एवं भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया। रात्रि में विविध कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान जैन श्रद्धालुओं में बढ चढ कर हिस्सा लिया। जैन समाज अध्यक्ष राजकुमार डेचिया ने बताया कि राकेश कुमार कोठारी परिवार ने भगवान के अभिषेक शांतिधारा का एवं महेंद्र डेचिया परिवार ने भगवान के निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान समाज के अशोक भूता, गोवर्धन डेचिया, गजेंद्र कोठारी, चंद्रकांत शाह, प्रवीण शाह, देवीलाल शाह आदि उपस्थित रहे। रात्रि में भगवान की आरती एवं पालना झुलाने का कार्यक्रम आयोजित किया।

बांसवाड़ा । मुनिसुव्रत नाथ दिगम्बर जैन मंदिर बाहबली कॉलोनी मे जैन धर्म के सोलहवें तीर्थकर भगवान शांति नाथ का जन्म, तप एवं मोक्ष कल्याणक श्रद्धा एवं भिक्ति के साथ मनाया। प्रात: प्रज्ञा श्रमण आचार्य चंद्रगुप्त गुरूदेव एवं आर्यिका सम्मेद शिखर मित माताजी के सानिध्य में मुलनायक भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। जिसके पुण्यार्जक परिवार हुकुमी चंद, मुन्ना देवी, हेमंत, कपिल कासलीवाल जोधपुर धर्म चंद, प्रेमचंद, कंवरीलाल पाटनी सूरत, अरविन्द चंचला कोठारी एवं सुमित, जयकुमार नम्रता मालवीया परिवार अहमदाबाद रहे। मुनिसुव्रत सेवा संस्थान के प्रवक्ता अशोक कोठिया नें

लाडू हुकमी चंद कासलीवाल परिवार की ओर से चढ़ाया गया। निर्वाण लाडू का निर्माण चंचला, अरविंद कोठारी ने किया। आचार्य चंद्र गृप्त का पाद प्रक्षालन पंकज वगेरिया, अरूणा रचित एवं केवल ने किया। पंडित नितिन भीमपुर के मार्गदर्शन में गुरूदेव द्वारा रचित शांति विधान में 124 अर्ध्य अर्पित किए। संस्थान अध्यक्ष परेश नायक, महामंत्री धनेन्द्र सेठ ने बताया कि कार्यक्रम में संस्थान के पंकज वगैरिया कन्हैयालाल सेठ, बलभद्र जगावत, चंदुलाल रजावत प्रकाश शाह, महिपाल सारगिया, महावीर मोरिया, राजेश मुंगेड़िया अनिल भवरा, वीरेंद्र वोरा अरूणा वगैरिया, सरिता कोठिया, प्रेमलता दोसी, मनीषा भवरा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्यार्जन किया। साौधर्म इंद्र हकमी चंद कासलीवाल जोधपर वाले रहे। विश्व शांति की कामना करते हुए 108 जाप किए गए। संगीतमय विधान में विधान जैन एवं पार्टी ने सहयोग प्रदान किया।

डूंगरपुर

खेरवाड़ा । ऋषभदेव निकटवर्ती श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पीपली ब ग्राम में भगवान शांतिनाथ का जन्म तप एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समाज के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार जैन ने बताया कि समारोह का आगाज सुंदर लाल किकावत परिवार ने झंडारोहण कर किया। विद्वान, विधनाचार्य पंडित पारस ने मंत्रोच्चारण कर मुल नायक शांति नाथ भगवान पर विभिन्न रसों से 135कलशो का अभिषेक किया गया। भगवान पर महाशांति धारा अभिषेक का पुण्यर्जन लीलावती सुंदर

# पंच कल्याणक छह दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव कल से

नगर के निकर्ट्ती कोकापुर में संकल दशा हुमड़ दिगम्बर जैन समाज की ओर से छह दिवसीय श्वेत मार्बल पाषाण से नवनिर्मित शिखरबद्व जिलालय का पंच कल्याणक

विनय शास्त्री, संजय शास्त्री के मंत्रोच्चार आयोजित किया जायेगा। प्रतिष्ठाचार्य विनोद पगारिया ने बताया कि जैन आगम प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज 28 मई से की वर्तमान चौबीसी के सोलहवें तीर्थंकर आचार्य सुनील सागर महाराज ससंघ के भगवान शांतिनाथ के इस जिनालय के पंच

**सागवाड़ा (प्रात:काल संवाददाता)।** विनोद उफ विश्ल पगारिया, ब्रह्माचारी का पूर्व रूप प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें तीर्थंकर माता के 16 सपनों का धार्मिक विधान से 28 मई से 2 जून तक प्रस्तुतिकरण, 29 मई को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप अष्ट कुमारी देवीयों द्वारा जगत जननी ऐरा देवा माता की सेवा, 30 मई को भगवान के जन्म कल्याणक अवसर पर सानिध्य में होगा। छह दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ 28 मई शांतिनाथ का जन्माभिषेक एवं सांय में कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव के को प्रातः ध्वजारोहण के साथ होगा। साथ बालक तीर्थंकर पालना झुलाया जायेगा।



पंजीकत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर, चकली सर्किल के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा- ३९० ००:

आचार्य सुनील सागरजी महाराज द्वारा सभी प्रतिष्ठेय प्रतिमाओं के दीक्षा संस्कार किए जाएंगे। मुनिराज अवस्था नामकरण विधि कर पिच्छी कमण्डल प्रदान किये जाएंगे। इसको लेकर 100 गुना 300 फीट फरियो से सजाया गया। गांव के प्रमुख के डॉम पाण्डाल में भगवान शांतिनाथ की मार्ग पर स्वागत द्वार लगाए गए।

सार्वजनिक सूचना

स्वर्ण ई-नीलामी सह आमंत्रण सूचना नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ( "आईसीआईसीआई बैंक") से प्राप्त सोने के आभुषणों के बदले सुविधा ( "सुविधा") के लिए उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हम 06 जून, 2025 को गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की ईं-नीलामी करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वे बकाया चुकाने में विफल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के खाता हटाने,ईं-नीलामी तिथि बदलने का अधिकार है। नीलामी ऑनलाइन -https://jewel-auction.procuretiopr.com पर दोपहर 12.30 बजे से 3.30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी

जन्म स्थली हस्तिनापुर नगर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही यज्ञशाला तथा ध्वाजारोहण स्थल का निर्माण किया व पूरे गांव को आकर्षक लाईट व चमकीली

# राणा पूंजा भील को राजपूत बताने पर भील सेना ने जताया रोष

में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह

भी मुगलों के साथ थे। मेवाड़ में

महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं के साथ-

साथ राणा पूंजा भील की प्रतिमाएं भी

हर चौराहे पर 36 कौम द्वारा बड़े

सम्मान से स्थापित की गई हैं और उन्हें

कि ऐसे महापुरूषों के इतिहास के साथ

छेड़छाड़ करने वाले और जातिगत

सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के

आदिवासी परिवार ने मांग की है

आदर्श माना जाता है।



संवाददाता)। राणा पूंजा भील को किया गया है। महाराणा प्रताप छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए भील सेना द्वारा जिला कलेक्टर के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन कार्यवाही किये जाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि मेवाड़ का इतिहास भीलों के बिना और भीलों का इतिहास पूंजा भील के बिना अधूरा है। भील माध्यम से आज भी जीवित है। सोलंकी राजपूत। इतिहास के पन्नों में छोटी बड़ी रियासतों के राज्य रहे। भारत में कई स्थानों, शहरों में संस्थापना भील राजाओं द्वारा की गयी है। मेवाड़ के मौजूद रहे। भोमट क्षेत्र के राजा पूंजा भील हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ विरूद्ध किया था। मेवाड़ के हल्दीघाटी भोमट के राजा पूंजा भील ने किया था। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान भीलों ने महाराणा प्रताप एवं मेवाड़ की सेना को अपने क्षेत्र भोमट में संरक्षण दिया। मेवाड़ के असीम प्रेम को देखते हुए

महाराणा प्रताप की माता द्वारा पूंजा

है एवं भीलों के सरदार मेरपूर के राणा

( प्रात:काल भीलों ने की, इसका भी उल्लेख कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते समाजजन । राजपूत बताये जाने तथा वर्तमान समय स्मारक में भी पूंजा भील की प्रतिमा में कुछ असामाजिक तत्वों पर मेवाड स्थापित की गयी जिसका उद्घाटन के भीलों के गौरवशाली इतिहास से प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 8 फरवरी 1989 को किया गया जिसमें उन्हें पूंजा भील ही बताया गया है। दिवेर युद्ध माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्थल पर भी पूंजा भील की तस्वीर में उन्हें भील बताया गया है। यहाँ तक कि सौंपकर असामाजिक तत्वों पर मेवाड़ में हल्दीघाटी युद्ध में राणी जाया भीली जाया भाई-भाई का नारा लगाया गया था। इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों के विरूद्ध संज्ञान लेकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग की गई। आदिवासी का इतिहास लोक गीतों के इस दौरान सुनील चौहान, गोपाल भील, हितेश, रोहित, नारायण, विमल, राजस्थान एवं मेवाड़ के संबंध में वर्षों पूरण, सुनील, मुकेश, पप्पू, नारायण, पुरानी पुस्तकें जिनमें भोमट के शासक कालूराम, श्यामलाल, नारायण, को भील बताया गया है, ना की उदयलाल, नारायण, राजू, रमेश, रतन, पन्नालाल, हीरालाल, बाबूलाल, भारत के भीलों का गौरवशाली इतिहास मोहनलाल, लादूलाल, रतन, भेरूलाल, रहा है। भील भारत के कई राज्यों एवं रतन, राजवीर, राकेश माल,

जमनालाल, गिरधारीलाल, शांतिलाल, हीरालाल, कालू महाराज, प्रकाश, राजू राजसमंद । हल्दीघाटी युद्ध के वीर योद्धा राणा पूंजा भील की वेशभूषा को के शासक का सहयोग अकबर के लेकर की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों और उनके इतिहास से में भीलों की सेना का नेतृत्व स्वयं छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने एडीएम नरेश बुनकर को रा%यपाल हरिभाऊ बागड़े के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों से लड़ने वाले भील को 'राणा' की पदवी दी। इसका वीर शिरोमणि राणा पूंजा भील इतिहास में भी वर्णन है। मेवाड़ में आदिवासी समाज के ही नहीं, बल्कि हल्दीघाटी युद्ध में राणी जाया-भीली पूरे देश के आदर्श हैं। आदिवासी जाया भाई-भाई का नारा लगाया गया समाज उनके बलिदान को हमेशा याद था। वीर विनोद पुस्तक जो मेवाड़ के करता है और उनकी पूजा करता है। वर्षों पुराने इतिहास को बताती है इस हालांकि कुछ राजपूत समाज के लोगों पुस्तक में भीलों को भोमिया कहा गया द्वारा सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अपने पूंजा का उल्लेख है। मुहणोत नेणसी री भाषणों में राणा पूंजा भील की प्रतिमा ख्यात में स्पष्ट रूप से पनोरा को भीलों की वेशभूषा को लेकर अपमानित का बताया जिसका उल्लेख है। राणा किया जा रहा है। ये लोग लगातार दयालदास भील का उल्लेख मिलता है उनकी प्रतिमा को राणा पूंजा सोलंकी जिसके पास 94 का उल्लेख मिलता है। राजपूत बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उदयपुर राज्य का ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि प्रंजा इतिहास पुस्तक 1928 के संदर्भ में भी सोलंकी कोई व्यक्ति हो सकता है, मेरपूर के राजा को भील समुदाय से लेकिन महाराणा प्रताप के साथ बताया एवं युद्ध में घायल की सहायता हल्दीघाटी युद्ध में लड़ने वाले योद्धा



राजसमंद। राणा पूंजा की वेशभूषा पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते आदिवासी समाज के लोग।

खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सरकार स्वतः संज्ञान लेकर कानुनी कार्रवाई करे। ज्ञापन में यह भी उगेख किया गया है कि भील समाज की वेशभूषा को नीच स्तर का बताने वाले और सार्वजनिक रूप से जातिगत अपमानित करने वाले कुछ राजपूत निंदनीय कृत्य किया है, उनसे

भ्रामक बातों से आदिवासी समदाय में भारी आक्रोश है। यह आक्रोश कभी भी जन आंदोलन का रूप ले सकता है और अशांति का माहौल बनने की पूरी संभावना है। राणा पूंजा भील की वेशभूषा को लेकर जिन लोगों ने उन्हें पूंजा सोलंकी राजपूत को बताने का जाति के लोगों द्वारा फैलाई जा रही सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जाए।

#### SANGAM FINSERV LIMITED

(Formerly known as Suchitra Finance & Trading Co. Ltd.) Reg off: B-10, 2nd Floor, S K Plaza, Pur Road, Bhilwara - 311001, Rajasthan Corp.Off.: B/306-309, Dynasty Business Park, Opp. Sangam Cinema, Andheri(E), Mumbai-400 059 Tel No.: 01482-796146, Email id: suchitra@sangamgroup.com, www.sftc.co.in,CIN No. L65910RJ1981PLC079945 Extract of Statement of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025

						(NS. III IANIIS)
Sr.	Particulars	3 months	Preceding 3		Year ended	
No.		ended	months	Months ended	31/03/2025	ended
		31/03/2025	ended	31/03/2024 in		31/03/2024
			31/12/2024			
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	90.97	693.89	470.17	1,701.48	1,857.82
2	Net Profit (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(166.72)	470.30	174.28	920.32	1,059.61
3	Net Profit before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(166.72)	470.30	174.28	920.32	1,059.61
4	Net Profit after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(170.77)	362.48	127.84	659.72	790.35
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(171.02)	362.48	129.23	645.29	786.50
6	Equity Share Capital	4,661.28	932.25	932.25	4,661.28	932.25
7	Other Equity				8,658.88	11,780.69
8	Earnings Per Share (Before and after extraordinary item) (of Rs. 10/- each)					
	1. Basic (In Rs.):	-0.37*	0.78*	0.27*	1.42	1.70
	2. Diluted (In Rs.):	-0.37*	0.78*	0.27*	1.42	1.70
	*==4 A ======1	•				

1. The above results which are published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements), Regulation 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 26th May, 2025. The financial results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant Rules thereunder. These results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company. The full format of the Financial Results are available on the Website of the Stock Exchange and on Companies Website

2. Figures to the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to correspond with the figures of the current period. 3. The Company has allotted 37290200 Bonus equity shares of Re. 10/- each in the ratio 4:1 to the exsiting share-

**Ankit Mundra** 

**Company Secretary** 

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR FOR SANGAM FINSERV LIMITED



holders on 7th Feb, 2025.



## २००५८५ | अर्जुन रार शाखा का नाम: अजमेर-आदर्श नर शाखा का नाम: अकोला (राजस्थान) 665562602682 राधश्या शाखा का नाम: अंजना

शाखा का नाम: अजमेर बोर्ड कैम्पस

685462605829 शाखा का नाम: आंत्री 689662602643 दीपक कुमार रोत शाखा का नाम: आसपुर लोकेन्द्र सिंह शाखा का नाम: बगरू नरेन्द्र सिंह शाखा का नामः बांसी 602151 शम्भू सिंह मीना शाखा का नामः बांसवाड़ा–गांधी मूर्ति 681162602403 इन्द्र सिंह 064362018388 665962603262 शाखा नाम: बाड़मेर देराज राम जेठा राम 153162005223 कमला देवी मीना अंजू देवी 

शाखा का नाम: बहरोड

669662606928 रणजीत सिंह 669662607470 विक्रम मेहरड़ा 666262602757 लक्ष्मण सिंह चौहान 666262605191 शाखा का नामः भीकमकोर 681462601644 गुलाब सिंह शाखा का नामः भीलवाडा-गढ़बोर टॉवर शाखा का नाम: भिवाड़ी-भगत सिंह कॉलोनी 349462000700 रमन शाखा का नाम: भुवाणा 02345 पुनम मिश्रा शाखा का नाम: बीकानेर-समता नगर 670362601044 045462006145 राज कुमार यादव शाखा का नाम: चाकसू

जिल्ला नाना: चाकसू जिल्ला नाम: चाकसू शाखा का नाम: खबड़ा 175462013666 सुदंद बैरवा 175462013968 सुदंद बैरवा शाखा का नाम: छनी 590662602174 ... सुरेंद्र सिंह पंवार शाखा का नाम: डीडवाना 74862010459

#### कुमारी शैलजा चतुर्वेदी 679662602310 शाखा का नाम: मंडी राजेंद्रपुर

694462600802 विजय पाल डेंडोर शाखा का नाम: दिल्ली - किशनगढ़ वसत कुंज 416762000540 प्रधान बैरवा शाखा का नाम: ग्रेटर नोएडा-गामा 1 348862001390 सौरभ सिरोही शाखा का नाम: श्योपुर <u>भूकश मीना</u>

स्थानः बारां, चित्तौड़गढ़, हुनुमानगढ़, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बूंदी, सलूम्बर, झालावाड़, झुंझुनूं, पाली, कोटा, शाहपुरा, बाइमर, भीलवाड़ा, जोअपुर, जोअपुर ग्रामीण, कोटपुराली-बहराड, फलीदी, राजसमन्द, सीकर, उदयपुर, तीस, ड्रागर्एर, जालीर, टोक, अजमर, बांसवाड़ा, बीकानर, गंगापुर, गंगापुरसिटी, जैसलमर, करीली, खैरथल-तीजारा, सांचीर, सिरोही, अलवर

452062000050 खुमा राम	साजा का नान. नुख्या
शाखा का नाम: घासा	355362002039 सरिता*
691362607271 भरत जोशी	शाखा का नाम: नागौर-स्टेशन रोड
शाखा का नाम: हमीरगढ	671862602633 जोगा राम
	शाखा का नाम: नंदवान
667562604635 कन्हेया लाल अहीर	
शाखा का नाम: हनुमानगढ़ जंक्शन	741362000714 समदा समदा
671062602181 जयसिंह गोदारा	741362001084 श्रीमती रहीशा
	शाखा का नाम: नीमराना
671062602147 जयसिंह गोदारा	153062002016 प्रवीण कुमार
शाखा का नाम: हनुमानगढ़ टाउन	
670962601248 मुबारिक खान	शाखा का नाम: नीमराना-जापानी क्षेत्र
070702001240 J-III(47 GIT	350262000404 विनोद सिंह
शाखा का नाम: हिण्डोन सिटी	350262000397 विनोद सिंह
686362606438 गपाल ना	शाखा का नाम: निंबाहेडा
शाखा का नाम: जयपुर - जगतपुरा	
	668662603428 इमरान खान
361762001407 अमिता चोपड़ा	शाखा का नाम: निम्बाहेडा के.एन
शाखा का नाम: जयपुर – स्वेज फार्म	668762602309 सागर कुंबर
541462000052 धर्मेन्द्र बगवानी	
	शाखा का नाम: नोखा
शाखा का नाम: जयपुर बजाज नगर	079462002643 दामोदर सिंह
674562601318 गजेन्द्र सिंह	शाखा का नाम: नोखा-कटला चौक
शाखा का नाम: जयपुर, वीकेआई	
	672262602809 रणवीर सिंह
678862602018 मुकेश कुमार शर्मा	शाखा का नाम: फलोदी
शाखा का नाम: जयपुर, वीकेआई	684462605340 ओम प्रकाश
064962004226 राखी शर्मा	शाखा का नाम: फुलिया कर्ला
	668862601381 हेमराज बैरवा
शाखा का नाम: जयपुर- प्रताप नगर कुम्भा मार्ग	668862601386 सांवर लाल गुर्जर
541162000042 जंग बहादुर यादव	668862601415 सुखलाल जेड
शाखा का नाम: जैसलमेर-केलापारा	
	668862601588 नारायण गुर्जर
682162604828 गणेश ना	668862601728 नारायण गुर्जर
शाखा का नाम: जालोर	शाखा का नाम: पिलानी
065362002318 सवाई सिंह	
शाखा का नाम: जसवन्तगढ़	शाखा का नाम: पुर
671362601973 राज कुमार	66662601251 लालाराम बैरवा
	66662601453 रतन लाल गुर्जर
671362606543 राजू सिंह	शाखा का नाम: पुष्कर
शाखा का नाम: जाखड़ेवाली	684562603455 गुलजार मंसूरी
	शाखा का नाम: रेला
	669162603422 लक्ष्मण नाथ
671462602930 श्रीभगवान श्रीभगवान	
शाखा का नाम: जोधपुर - 5वां अपर चोपासनी रोड	शाखा का नाम: राजसमंद
	065562001089 कमल शर्मा
	065562005338 मोती लाल कुमावत
	005562005556
शाखा का नाम: जोधपुर - बासनी चरण-द्वितीय	
	शाखा का नाम: रावतभाटा-झालरबावडी
785462000027 सुरेंद्र हंस	शाखा का नाम: रावतभाटा-झालरबावड़ी 159862006175 मुनेन्द्र विजयवर्गीय
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस	159862006175 मुनेन्द्र विजयवर्गीय
785462000027 सुरेंद्र हंस	159862006175 मुनेन्द्र विजयवर्गीय 159862005419 मीना मीना
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस	159862006175 मुनेन्द्र विजयवर्गीय 159862005419 मीना मीना 159862005539 राजेंद्र कुमार
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शास्त्रा का नाम: जीधपुर सीजर्ती गेट	159862006175 मुनेन्द्र विजयवर्गीय 159862005419 मीना मीना 159862005539 राजेंद्र कुमार शाखा का नाम: रावतसर
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस भाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम	159862006175 मुनेद्र विजयवर्गीय 159862005419 मीना मीना 159862005539 मीना प्रजेंद्र कुमार शाखा का नाम: रावतसर 672562606925 मस्ताक खा
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, चोजासनी आवास	159862006175 मुनेद्र विजयवर्गीय 159862005419 मीना मीना 159862005539 मीना प्रजेंद्र कुमार शाखा का नाम: रावतसर 672562606925 मस्ताक खा
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, चोजासनी आवास	159862006175 मुनेन्द्र विजयवर्गीय 159862005419 मीना मीना 159862005539 राजेंद्र कुमार शाखा का नाम: रावतसर 672562606925 मुस्ताक खा
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रेंद्र हंस शाखा का नाम: जीधपुर सीजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जीधपुर, योपासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग	159862006175 मुनेन्द्र विजयवर्गीय 159862005419 मीना मीना 159862005419 पार्जेद कुमार 159862005539 पार्जेद कुमार शाखा का नाम: रोक्तसर 672562606925 मुस्ताक खा खाबा का नाम: रोक्ट, राजस्थान 350062001031 हरि सिंह
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 बुकमा गम शाखा का नाम: जोधपुर सोजनी अवास 682762601771 मोहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर-सरस्वतीनगर	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   159862005419   मीना मीना   159862005539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतस्स   672552606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: राेहट, राजस्थान   350062001031   हर्र सिंह   शाखा का नाम: सांदडी
78546200027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रंद्र हंस शाखा का नामः जोधपुर सोजती गेट हि8316261576 हु क्या राम शाखा का नामः जोधपुर नोपासनी आवास 682762601771 मोहन राम सियाग शाखा का नामः जोधपुर-सरस्वतीनगर हि82662600538 लिल्ला प्रजापति	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   159862005419   मीना मीना   159862005539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतस्स   672552606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: राेहट, राजस्थान   350062001031   हर्र सिंह   शाखा का नाम: सांदडी
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 बुकमा गम शाखा का नाम: जोधपुर सोजनी अवास 682762601771 मोहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर-सरस्वतीनगर	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   159862005419   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   राजांव का नाम: रावतसर   स्ताक का नाम: रावतसर   स्ताक का नाम: रावतसर   साखा का नाम: रादर, राजस्थान   350062001031   हिर सिंह   शाखा का नाम: सादडी   राजांव
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रेंद्र हंस शाखा का नामः जीधपुर सीजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नामः जीधपुर, चेपासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नामः जीधपुर, न्यास्वतीनगर 682662600538 लिलिता प्रजापित शाखा का नामः जीधपुर, न्यास्वतीनगर	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     159862005419   मीना मीना     159862005419   पार्चेद्र कुमार     159862005539   पार्चेद्र कुमार     1672562606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रोहर, राजस्थान     350062001031   हिर सिंह     शाखा का नाम: सादडी     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: साचीर
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, जोधासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सरव्यतीनगर 682662600538 लाला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यरन 686862606411 मोईन खान	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     159862005419   मीना मीना     159862005539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नामः रावतसर     672562606925   मुस्ताक खा     शाखा का नामः रोहट, राजस्थान     350062001031   हार सिंह     शाखा का नामः सावडी     शाखा का नामः सावडी     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नामः सावीर     283362002571   विनेश कुमार
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रंद्र हंस शाखा का नामः जोधपुर सोजती गेट 683162601576 शाखा का नामः जोधपुर सोजती गेट शाखा का नामः जोधपुर सोजती गेट शाखा का नामः जोधपुर सोजती गेट शाखा का नामः जोधपुर-सरस्वतीनगर हाखा का नामः जोधपुर-सरस्वतीनगर शाखा का नामः नाम्ये- 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नामः कार्यन 686862606411 मोईन खान	159862006.175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     159862005.19   मीना मीना     159862005.539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावतसर     472662606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रोहर, राजस्थान     350062001031   होर सिंह     शाखा का नाम: सांदडी     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: सांवीर     283362002571   दिनश कुमार     शाखा का नाम: सांडोव
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, चेपापतां आवास 682762601771 मोहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सारस्वतीनगर 68266260538 लिलिता प्रजापति शाखा का नाम: कार्परन 686862606411 मोईन खान शाखा का नाम: कार्परन	159862006.175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     159862005.19   मीना मीना     159862005.539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावतसर     472662606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रोहर, राजस्थान     350062001031   होर सिंह     शाखा का नाम: सांदडी     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: सांवीर     283362002571   दिनश कुमार     शाखा का नाम: सांडोव
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, चेपापतां आवास 682762601771 मोहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सारस्वतीनगर 68266260538 लिलिता प्रजापति शाखा का नाम: कार्परन 686862606411 मोईन खान शाखा का नाम: कार्परन	159862006175   मृतेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतस्स   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतस्य   150062001031   हर सिंह   शाखा का नाम: सांवद्ध   150062001031   शाखा का नाम: सांवद्ध   150062001031   शाखा का नाम: सांवद्ध   150062001031   श्रमुलाल मीना   150062001031   शाखा का नाम: सांवद्ध   150062001031   स्वाचित्र कुमार   150062001031   स्वाच्या का नाम: सांवद्ध   1500620003031   स्वाच्या का नाम: सांवद्ध   1500620003031   स्वाच्या का नाम: सांवद्ध   1500620003031   स्वाच्या का नाम: सांवद   1500620003031   सांवद   150062003031   सांवद   150062003031
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, चोयासनी आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सरवानीनगर 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यप्त (88662606411 मीईन खान शाखा का नाम: कर्तेंची 088162005642 सर्जीव कुमार शाखा का नाम: क्रीव्यल	159862006.175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   159862005.19   मीना मीना   159862005.539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   67256.2606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रोहट, राजस्थान   350062001031   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभुलाल मीना   शाखा का नाम: सावीर   283362002571   विनेश कुमार   शाखा का नाम: सांडेगव   1500000000000000000000000000000000000
78546200027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 शाखा का नाम: जोधपुर, चोपासनो आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर-सरस्वतीनगर शाखा का नाम: जोधपुर-सरस्वतीनगर हाउंदि हैंदि ह	159862006.175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   159862005.19   मीना मीना   159862005.39   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   सुम्साक खा   सांच्या का नाम: रावतसर   सुम्साक खा   सांच्या का नाम: राहर, राजस्थान   350062001031   होर सिंह   शाखा का नाम: सांदर्ज   सांखा का नाम: सांदर्ज   सांखा का नाम: सांवर्ज   सांखा का नाम: सांवर्ग   283362002571   दिनेश कुमार   शाखा का नाम: सांवेर्ग   दिनेश कुमार   शाखा का नाम: सांवेर्ग   सांखा का नाम: सांवेर्ग   सांवेर्ग मानवांय   शाखा का नाम: सांवेर्ग   सांवेर्ग मानवांय   शाखा का नाम: सांवेर्ग   सांवेर्ग मानवांय   शाखा का नाम: सांवेर्ग
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा गम शाखा का नाम: जोधपुर, योगासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, नायासनी आवास 682662600538 लीहना प्रजापति शाखा का नाम: जोधपुर, स्वारवानीगर 68266260611 मोईन खान शाखा का नाम: करीरन 088162005642 संजीव कुमार शाखा का नाम: खैरथह 679362604565 वियोग ना	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   1506200131   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सादडी   151962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: सावौर   151962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: सावौर   1519620002571   दिनेश कुमार   151962000394   दितेश मानवाय   151962000371   स्वितेश मानवाय   175262000371   स्वितेश मानवाय   175262000371   स्वितेश सिंगला   1752620003032   पवन कुमार   पवन कुमार   1752620003032
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोपासनी आवास 682762601771 मीहन राम सिवाग शाखा का नाम: जोधपुर, सोजारी गेट 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कार्यन 68662005642 सजीव कुमार शाखा का नाम: खैरपल 679362604565 विपीन ना 679362604565	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   1506200131   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सादडी   151962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: सावौर   151962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: सावौर   1519620002571   दिनेश कुमार   151962000394   दितेश मानवाय   151962000371   स्वितेश मानवाय   175262000371   स्वितेश मानवाय   175262000371   स्वितेश सिंगला   1752620003032   पवन कुमार   पवन कुमार   1752620003032
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोपासनी आवास 682762601771 मीहन राम सिवाग शाखा का नाम: जोधपुर, सोजारी गेट 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कार्यन 68662005642 सजीव कुमार शाखा का नाम: खैरपल 679362604565 विपीन ना 679362604565	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     159862005419   मीना मीना     159862005539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावतसर     672562606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रोहट, राजस्थान     350062001031   हार्र सिंह     शाखा का नाम: सादडी     शाखा का नाम: सादडी     शाखा का नाम: सादडी     शाखा का नाम: सावीर     283362002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सोनिया     684962600594   हितेश माटावीय     शाखा का नाम: सोनीया     175262002371   सुलेखा सिंगला     175262003032   पवन कुमार     शाखा का नाम: सीमालवाख़
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, सोयाती गोवास 682762601771 मोहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सारस्वतीनगर हाला का नाम: जायपुर, सारस्वतीनगर हाला का नाम: कार्परेन 68662606411 मोईन खान शाखा का नाम: करोला 088162005642 संजीव कुमार शाखा का नाम: करोला 088162005645 विपोन ना 679362604565 विपोन ना राखा का नाम: कुकस-आर्थ कॉलव	159862006175   मृतेन्द्र विजयवर्गीय     15986200519   मीना मीना     15986200539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावतसर     672562606925   मृत्ताक खा     शाखा का नाम: रावतस     शाखा का नाम: रावत     शाखा का नाम: रावेंद्र , राजस्थान     35006201031   हिर्ते सहिंद्र     शाखा का नाम: सावेंद्र     451962000150   प्रभूलाल मीना     शाखा का नाम: सावेंद्र     283362002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सावेंद्र     राववां का नाम: सावेंद्र
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा गम शाखा का नाम: जोधपुर, जोबासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, चोबासनी आवास 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कापरेन शाखा का नाम: कापरेन शाखा का नाम: कारोन शाखा का नाम: कारोन शाखा का नाम: करेला 08816200542 संजीव कुमार शाखा का नाम: खैरपल 679362604565 विपोन ना शाखा का नाम: कुकस-आवं क्लिंज 435362000224 सुमजा देवी शमा शाखा का नाम: कुकस-आवं क्लिंज	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200519   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा शाखा का नाम: रावतस   672562606925   मुस्ताक खा शाखा का नाम: रावट, राजस्थान   350062001031   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सावडी   451962000150   प्रभुताल मीना   शाखा का नाम: सावडी   283362002571   विनेश कुमार   शाखा का नाम: सावडीव
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा गम शाखा का नाम: जोधपुर, जोबासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, चोबासनी आवास 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कापरेन शाखा का नाम: कापरेन शाखा का नाम: कारोन शाखा का नाम: कारोन शाखा का नाम: करेला 08816200542 संजीव कुमार शाखा का नाम: खैरपल 679362604565 विपोन ना शाखा का नाम: कुकस-आवं क्लिंज 435362000224 सुमजा देवी शमा शाखा का नाम: कुकस-आवं क्लिंज	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   159862005539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: राहेट, राजस्थान   350062001031   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सांवडी   451962000150   प्रभुलाल मीना   शाखा का नाम: सांवडी   451962000150   प्रभुलाल मीना   शाखा का नाम: सांवीर   283362002571   वितेश कुमार   शाखा का नाम: सांवीर   164962600594   हितेश मालवीय   शाखा का नाम: सांवीरा   175262003032   पवन कुमार   शाखा का नाम: सीमारवा   175262003032   पवन कुमार   175262003032   175262003032   पवन कुमार   175262003032
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोपासनी आवास 682762601771 मोहन राम सिवाग शाखा का नाम: जोधपुर, चोपासनी आवास 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यन 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कर्तेंग्ली 088162005642 सजीव कुमार शाखा का नाम: खैरथल 679362604565 विपीन ना विशास का नाम: क्रिक्स-आर्थ कलिज 435362000224 सुमाज देवी शर्मा शाखा का नाम: क्रक्स-आर्थ कलिज 435362000224 सुमाज देवी शर्मा शाखा का नाम: क्रिश्चल	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   159862005539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: राहेट, राजस्थान   350062001031   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सांवडी   451962000150   प्रभुलाल मीना   शाखा का नाम: सांवडी   451962000150   प्रभुलाल मीना   शाखा का नाम: सांवीर   283362002571   वितेश कुमार   शाखा का नाम: सांवीर   164962600594   हितेश मालवीय   शाखा का नाम: सांवीरा   175262003032   पवन कुमार   शाखा का नाम: सीमारवा   175262003032   पवन कुमार   175262003032   175262003032   पवन कुमार   175262003032
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुक्मा राम शाखा का नाम: जोधपुर, सारवतीनगर शाखा का नाम: जोधपुर, सारवतीनगर शाखा का नाम: जोधपुर, सारवतीनगर हि68662600538 लिला प्रजापि शाखा का नाम: कार्पन 68662606411 माईन खान शाखा का नाम: करोली 088162005642 संजीब कुमार शाखा का नाम: खेरथल 679362604565 विपीन ना शाखा का नाम: खेरथल 479362604565 विपीन ना शाखा का नाम: क्रांद्रियां करोज	159862006175   मृतेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   67256260925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   157262600925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: राहेट, राजस्थान   350062001031   हिर सिंह   शाखा का नाम: सादेडी   451962000150   प्रभृताल मीना   शाखा का नाम: सावेंद्र   283362002571   दिनेश कुमार   शाखा का नाम: सावेंद्र   157262000371   हिरोश मानवांय   शाखा का नाम: सारेंद्राव   175262000371   सुलेखा सिंगला   1752620003032   पवन कुमार   शाखा का नाम: सीमलवाङ्ग   433962003588   कारी लाल डामोर   शाखा का नाम: सेवंद्री   669362601038   महन्द लाल   शाखा का नाम: साइडडाईपुर (अलवर)
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, जोधासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, चोधासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, चरवरवानेगगर 682662600538 लिलाा प्रजापित शाखा का नाम: कोपरेन 6886862606411 मोईन खान शाखा का नाम: केपरेन 688682606411 संजीव कुमार शाखा का नाम: खेरथल 679362604562 विपोन ना शाखा का नाम: कुकस-आयं कॉलंज 45562000224 सुमित्रा देवी शमा शाखा का नाम: -कुकस-आयं कॉलंज 45562000224 सुमार -किश्वर्थ	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     159862005419   मीना मीना     159862005539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावतसर     672562606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रावतस     350062001031   हार्र सिंह     शाखा का नाम: सांदडी     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: सांदडी     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: सांदीर     883362002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सोंदाव     684962600594   दिलेश मालवीय     शाखा का नाम: सोंनारवा     175262002371   सुलेखा सिंगला     175262003032   पवन कुमार     शाखा का नाम: सोनाना     433962003588   कारी लाल डामोर     शाखा का नाम: सेवंजी     669362601038   मदन लाल     शाखा का नाम: सोवंजी     669362601038   मदन लाल     शाखा का नाम: शाहजांपुर (अलवर)     466162000028   शिवशंकर शिवशंकर ।
785462000027 सुर्रेंद्र हंस 785462000095 सुर्रेंद्र हंस 785462000098 सुर्रेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुक्मा राम शाखा का नाम: जोधपुर, सारवतीनगर शाखा का नाम: जोधपुर, सारवतीनगर शाखा का नाम: जोधपुर, सारवतीनगर हि68662600538 लिला प्रजापि शाखा का नाम: कार्पन 68662606411 माईन खान शाखा का नाम: करोली 088162005642 संजीब कुमार शाखा का नाम: खेरथल 679362604565 विपीन ना शाखा का नाम: खेरथल 479362604565 विपीन ना शाखा का नाम: क्रांद्रियां करोज	159862006175   मृत-द्र विजयवर्गीय     15986200519   मीना मीना     15986200539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावत्सस     672562600925   मृतनाक खा     शाखा का नाम: रावत्स     872562600925   मृतनाक खा     शाखा का नाम: राहट, राजस्थान     35006201031   हिर सिंह     शाखा का नाम: साव्दे     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: साव्दे     48362002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सावेरा     84962600594   हितेश मालवीय     शाखा का नाम: सानेरा     84962600594   हितेश मालवीय     शाखा का नाम: सानेरा     84396200358   मृतनाला     84396200358   कारो लाल डामोर     शाखा का नाम: सोवंदा     84396200358   कारो लाल डामोर     शाखा का नाम: सावेरा     84396200358   कारो लाल डामोर     शाखा का नाम: सावेरा     84396200358   कारो लाल डामोर
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोपासनो आवास 682762601771 मोहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, चोपासनो आवास 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यपर 682662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कार्यन 68662606411 सुर्वेश खाना शाखा का नाम: कर्तेला 088162005642 सुजीव कुमार शाखा का नाम: क्रैंदिस 79362604565 विपीन ना 679362604565 विपीन ना 679362604562 सुमार केंदिस शाखा का नाम: क्रेंदिस	159862006175   मृत-द्र विजयवर्गीय     15986200519   मीना मीना     15986200539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावत्सस     672562600925   मृतनाक खा     शाखा का नाम: रावत्स     872562600925   मृतनाक खा     शाखा का नाम: राहट, राजस्थान     35006201031   हिर सिंह     शाखा का नाम: साव्दे     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: साव्दे     48362002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सावेरा     84962600594   हितेश मालवीय     शाखा का नाम: सानेरा     84962600594   हितेश मालवीय     शाखा का नाम: सानेरा     84396200358   मृतनाला     84396200358   कारो लाल डामोर     शाखा का नाम: सोवंदा     84396200358   कारो लाल डामोर     शाखा का नाम: सावेरा     84396200358   कारो लाल डामोर     शाखा का नाम: सावेरा     84396200358   कारो लाल डामोर
78546200027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162610576 हुकमा गम शाखा का नाम: जोधपुर, चोचासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, नायासनी आवास 682662600538 लीहना प्रजापति शाखा का नाम: कापरेन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कर्परेन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: केर्पटन 679362604565 विग्वेन ना शाखा का नाम: खैरक्ह 679362604562 सुमें कहिन व	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   15086200131   हर्ग सिंह   राजस्थान   350062001031   हर्ग सिंह   शाखा का नाम: सावडी   साखा का नाम: सावडी   451962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: सावडी   स्वाचित का नाम: सावडी   सावडी   सावडी का नाम: सावडी
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, जोयासनी आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सोयासनी आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सरक्तानागर 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यपर शाखा का नाम: कार्यपर 688662600411 मीईन खान शाखा का नाम: कर्तेग्ली 08816200542 सजीव कुमार शाखा का नाम: कर्तेग्ली 679362604565 वियोग ना शाखा का नाम: क्रेस्ट्रक्ल विज्ञेठ2604562 स्त्रिम ना शाखा का नाम: क्रेस्ट्रक्ल शाखा का नाम: क्रेस्ट्रक्लि शाखा का नाम: क्रेस्ट्रक्लि 679362604562 प्राची का नाम: क्रेस्ट्रक्लि शाखा का नाम: क्रेस्ट्रक्लि 979362604563 वियोग ना शाखा का नाम: क्रेस्ट्रक्लिक शाखा का	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     15986200519   मीना मीना     15986200519   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावतसर     672562606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रावतसर     672562606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: राहर, राजस्थान     350062001031   हिर सिंह     शाखा का नाम: सादडी     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: साविर     283362002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सावेरा     84962600594   हितेश मात्वीय     शाखा का नाम: सावेरा     175262002371   सुलेखा सिंगला     17526200332   पवन कुमार     शाखा का नाम: सेमिलवाड़ा     433962003588   कारी लाल डामोर     शाखा का नाम: सेमिलवाड़ा     433962003588   कारी लाल डामोर     शाखा का नाम: शाखा का माम: सेमिलवाड़ा     46616200028   शिकशंकर शिवशंकर     शाखा का नाम: सीकर     4665762003189   अक्षण कुमार     4675762003189   अक्षण कुमार     478762003189   स्वर्गकर     478762003189   स्वरंगकर     478762
78546200027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162610576 हुकमा गम शाखा का नाम: जोधपुर, चोचासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, नायासनी आवास 682662600538 लीहना प्रजापति शाखा का नाम: कापरेन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कर्परेन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: केर्पटन 679362604565 विग्वेन ना शाखा का नाम: खैरक्ह 679362604562 सुमें कहिन व	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     15986200519   मीना मीना     15986200539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावतसर     672552606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रावतस     87256260925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रावद     शाखा का नाम: सांदर     451962000150   प्रभृताल मीना     शाखा का नाम: सांदेश     451962000150   प्रभृताल मीना     शाखा का नाम: सांदेश     83862002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सांदेश     849862000594   हितेश मात्वांय     शाखा का नाम: संगित     175262003371   सुलेखा सिंगला     175262003372   सुलेखा सिंगला     175262003388   कारी लाल डामोर     शाखा का नाम: संवेश     669362601038   मदन लाल     शाखा का नाम: सांवर्ग     466162000028   शिवशंकर शिवशंकर     शाखा का नाम: सींकर     878862003189   अरुण कुमार     878862003189   अरुण कुमार     878862005189   अरुण कुमार
785462000027 सुर्देह हंस 785462000095 सुर्देह हंस 785462000098 सुर्देह हंस शाखा का नाम: जोधपुर, सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोपासनो आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, चोपासनो आवास 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यन 682662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कार्यन 68662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कर्तेली 088162005642 संजीव कुमार शाखा का नाम: क्रैंस्थल 679362604565 विपीन ना 679362604565 विपीन ना 679362604562 सुमार वेवी शामी शाखा का नाम: क्र्रेस-आर्थ केलिंज 435362000224 सुमार वेवी शामी शाखा का नाम: क्रींस्थल 68006602714 अशाक शर्मा शाखा का नाम: क्रींस्थल 68006602714 अशाक शर्मा शाखा का नाम: क्रींस्थल 68006602714 अशाक शर्मा शाखा का नाम: क्रींस्थल	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय     15986200519   मीना मीना     15986200519   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावतसर     672562606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: रावतसर     672562606925   मुस्ताक खा     शाखा का नाम: राहर, राजस्थान     350062001031   हिर सिंह     शाखा का नाम: सादडी     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: साविर     283362002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सावेरा     84962600594   हितेश मात्वीय     शाखा का नाम: सावेरा     175262002371   सुलेखा सिंगला     17526200332   पवन कुमार     शाखा का नाम: सेमिलवाड़ा     433962003588   कारी लाल डामोर     शाखा का नाम: सेमिलवाड़ा     433962003588   कारी लाल डामोर     शाखा का नाम: शाखा का माम: सेमिलवाड़ा     46616200028   शिकशंकर शिवशंकर     शाखा का नाम: सीकर     4665762003189   अक्षण कुमार     4675762003189   अक्षण कुमार     478762003189   स्वर्गकर     478762003189   स्वरंगकर     478762
785462000027 सुर्देह हंस 785462000095 सुर्देह हंस 785462000098 सुर्देह हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 683162601576 हुकमा गम लिएक निर्माण का नाम: जोधपुर, जोजाती गेट 683762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, जोजासनी आवास लिएक निर्माण का नाम: का नाम: का नाम: लिएक निर्माण का नाम: का नाम: लिएक निर्माण का नाम: का नाम: लिएक निर्माण का नाम: कार्यन लिएक निर्माण कार्यम	159862006175   पुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   पीना पीना   15986200519   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   पुन्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   350062001031   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभुताल मीना   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभुताल मीना   शाखा का नाम: सादेश   883362002571   वितेश कुमार   शाखा का नाम: सांचीर
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, जोयासनी आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सोजाती गेट 682662600538 लिला प्रजापित शाखा का नाम: जोधपुर, सरवानीनगर 682662600411 मीईन खान 78181 का नाम: कार्यपन 68862606411 मीईन खान शाखा का नाम: कर्येग्नी 08816200542 संजीव कुमार शाखा का नाम: कर्येग्नी 78181 का नाम: क्र्यंस्थल 679362604565 वियोग ना शाखा का नाम: क्र्यंस्थल 679362604562 स्त्रिम ना शाखा का नाम: क्र्यंस्थल 68862602714 अशोक शामा शाखा का नाम: क्रोटा 01846201290 यूधिशर कुमार नवल शाखा का नाम: कोटा तलवडी 153962001563 गीरव गीनम शाखा का नाम: कोटा नलवडी 153962001663 गीरव गीनम शाखा का नाम: कोटा नलवडी	159862006175   मृतेन्द्र विजयवर्गीय     15986200519   मीना मीना     15986200539   राजेंद्र कुमार     शाखा का नाम: रावत्सस     672562600925   मृत्नाक खा     शाखा का नाम: रावत्सस     672562600925   मृत्नाक खा     शाखा का नाम: रावेंद्र , राजस्थान     35006201031   हिंर सिंह     शाखा का नाम: सांदर्ध     451962000150   प्रभुलाल मीना     शाखा का नाम: सांदर्ध     483862002571   दिनेश कुमार     शाखा का नाम: सांदेश     849862600594   हितेश मालवीय     शाखा का नाम: संगेराव     175262002371   प्रने कुमार     शाखा का नाम: संगेराव     175262003032   प्रवन कुमार     175262003032   प्रवा कुमार     175262003032   प्रवा कुमार     175262003032   प्रवन कुमार     175262003032   प्रवन कुमार     175262003032   प्रवन कुमार     175262003032   प्रवन कुमार     175262003032   प्रवा कुमार     175262003032   प्रवन कुमार     175262003032   प्रवा कुमार     17
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, जोयासनी आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, सोजाती गेट 682662600538 लिला प्रजापित शाखा का नाम: जोधपुर, सरवानीनगर 682662600411 मीईन खान 78181 का नाम: कार्यपन 68862606411 मीईन खान शाखा का नाम: कर्येग्नी 08816200542 संजीव कुमार शाखा का नाम: कर्येग्नी 78181 का नाम: क्र्यंस्थल 679362604565 वियोग ना शाखा का नाम: क्र्यंस्थल 679362604562 स्त्रिम ना शाखा का नाम: क्र्यंस्थल 68862602714 अशोक शामा शाखा का नाम: क्रोटा 01846201290 यूधिशर कुमार नवल शाखा का नाम: कोटा तलवडी 153962001563 गीरव गीनम शाखा का नाम: कोटा नलवडी 153962001663 गीरव गीनम शाखा का नाम: कोटा नलवडी	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562609525   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   672562609525   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावत   रावतस्य   रावतस्य
78546200027 सुर्रेट हंस 785462000095 सुर्रेट हंस 785462000098 सुर्रेट हंस 785462000098 सुर्रेट हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 68316261576 हुकमा गम शाखा का नाम: जोधपुर, चोचासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, नाचासनी आवास 68266260538 लीहना प्रजापति शाखा का नाम:	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562609525   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   672562609525   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावत   रावतस्य   रावतस्य
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस 785462000596 हुकमा यम 785562601771 मीइन यम सियाग 7818ा का नाम: जोधपुर, चोयासनी आवास 785762601771 मीइन यम सियाग 7818ा का नाम: जोधपुर, चायासनी आवास 78562660538 लिलाा प्रजापित 78181 का नाम: कोप्रेप्त 7856866606411 मोईन खान 78181 का नाम: कोप्रेप्त 7856260452 संजीव कुमार 78181 का नाम: खेंद्रभ्वल 79362604565 विपोन ना 78181 का नाम: कोप्रेप्त 78181 का नाम: कोप्रिय 78181 का नाम: कोप्रेप्त 78181 का नाम: कोप्रिय 78181 का नाम: कोप्रिय 78181 का नाम: कोप्रेप्त 78181 का नाम: लोप्य 78181 का नाम: लोप्य	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200519   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतस   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतस   350062001031   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सांदडी   सांचा का नाम: सांची   सांचा का नाम: सांचा   सांचा का नाम: सांचा का नाम: सांचा   सांचा का नाम: सांचा का नाम: सांचा का नाम: सांचा का नाम: सांचा   सांचा का नाम: सांचा नाम: सांचा का नाम: सांचा क
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर, सोवाती गेट 683162601576 सुकम राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोचासनी आवास 682762601771 मीइन राम सिवाग शाखा का नाम: जोधपुर, नाम सिवाग शाखा का नाम: करौली 08816200542 सिजाव कुमार शाखा का नाम: क्रेट्य- शाखा का नाम: क्रेट्य- त्राखा का नाम: कोटा 018462012390 योधार कुमार नवल शाखा का नाम: कोटा 018462012390 योधार कुमार नवल शाखा का नाम: कोटा नत्म लिवाग 065262004869 राकेश कुमार शाखा का नाम: कोटा- त्राखा का नाम: कोटा- शाखा का नाम: कोटा-	159862006175   मृनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   67256260925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   67256260925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: राहट, राजस्थान   35006200131   हिर सिंह   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: सावीर   सिंह कुमार   शाखा का नाम: सीमलवाड़   सिंह कुमार   सावीर   सिंह कुमार   सावा का नाम: सीमलवाड़   सावा का नाम: सीमलवाड़   सिंह कुमार   सावा का नाम: सीमलवाड़   साव
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर, सोवाती गेट 683162601576 सुकम राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोचासनी आवास 682762601771 मीइन राम सिवाग शाखा का नाम: जोधपुर, नाम सिवाग शाखा का नाम: करौली 08816200542 सिजाव कुमार शाखा का नाम: क्रेट्य- शाखा का नाम: क्रेट्य- त्राखा का नाम: कोटा 018462012390 योधार कुमार नवल शाखा का नाम: कोटा 018462012390 योधार कुमार नवल शाखा का नाम: कोटा नत्म लिवाग 065262004869 राकेश कुमार शाखा का नाम: कोटा- त्राखा का नाम: कोटा- शाखा का नाम: कोटा-	159862006175   मुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   159862005519   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   157262606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावट, राजस्थान   350062001031   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभूताल मीना   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभूताल मीना   शाखा का नाम: सांचीर   सांच
78546200027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजती गेट 68316261576 हुकमा पाम लिएका का नाम: जोधपुर, योजाती गेट 68316261576 हुकमा पाम शाखा का नाम: जोधपुर, योजासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, नायासनी आवास 682662600538 लीहना प्रजापति शाखा का नाम: कापरेन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कर्मरेन 68662606411 मोईन खान शाखा का नाम: केर्येचल 688162005642 संजीव कुमार शाखा का नाम: खैरखल 679362604565 विपीन ना शाखा का नाम: केर्येचल 435362000224 सुमना देवी शाम शाखा का नाम: कोर्येचल 688062602714 अशाक शर्मा शाखा का नाम: कोट्य-तलवेडी 153962001563 गीरव गीरतम शाखा का नाम: कोट्य-तलवेडी	159862006175   मृनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562600525   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   672562600925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावत्स   राजस्थान   35006201031   हिर सिंह   शाखा का नाम: सांवद   साखा का नाम: सांवद   451962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: सांवद   884962600594   हितेश मालवीय   शाखा का नाम: सांवदा   884962600594   हितेश मालवीय   शाखा का नाम: सांवदा   175262002371   स्लेखा विगला   175262002371   स्लेखा विगला   17526200332   पवन कुमार   शाखा का नाम: संवदा   स्वाच   सांवदा का नाम: संवदा   17526200338   कारो लाल डामोर   शाखा का नाम: संवदा   17526200338   कारो लाल डामोर   शाखा का नाम: संवदा   17526200388   कारो लाल डामोर   शाखा का नाम: संवदा   17526200389   अरुण कुमार   17526200385   राम सिंह   शाखा का नाम: सोंकर   राने सिंह   शाखा का नाम: सिंहान   175362604073   मुकेश कुमार   175362604073   मुकेश कुमार   17536260254   अरुण अज्ञय   शाखा का नाम: सिंहान   17536260254   अरुण अज्ञय   1754626020254   सामवार सिंह   1754626020261   सामवार सिंह   17546260200261   सामवार सिंह   175462602005   175462602005   175462602005   175462602005   175462602005   175462602005   175462620205   175462620205   175462620205   175462620205   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546262005   17546
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, जोधासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, चोधासनी आवास 682762601771 मीहन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, चारावतीनगर 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कोपरेन 688686606411 मोईन खान शाखा का नाम: कोपरेन 688686606411 मोईन खान शाखा का नाम: केरिन लिला प्रजापति शाखा का नाम: केरिन शाखा का नाम: केरिन विकेट005642 संजीव कुमार शाखा का नाम: केरिन लि8062604565 विपोंन ना शाखा का नाम: केरिन शाखा का नाम: केरिन शाखा का नाम: केरिन शाखा का नाम: कोरिन शाखा का नाम: कोरिन शाखा का नाम: कोरिन शाखा का नाम: कोरीन शाखा का नाम: कोरी-तलकरी शाखा का नाम: कोरीन शाखा का नाम: लोरीन शाखा का नाम: लोरीन	159862006175   मृतन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562600925   मृतनाक खा   शाखा का नाम: रावतसर   672562600925   मृतनाक खा   शाखा का नाम: रावतर   शाखा का नाम: रावतर   शाखा का नाम: रावतर   शाखा का नाम: सांवद   साखा का नाम: सांवद   साखा का नाम: सांवद   88362002571   दिनेश कुमार   शाखा का नाम: सांवद   884962600594   हितेश मालावीय   शाखा का नाम: सांवदा   175262002371   प्रतेश कुमार   शाखा का नाम: सांवदा   स्वाच का नाम: सांवदा   रावत कुमार   शाखा का नाम: सांवदा   रावत कुमार   शाखा का नाम: सांवदा   रावत कुमार   शाखा का नाम: संवदा   रावत कुमार
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर, सोजारी गेट 683162601576 सुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोचासनी आवास 682762601771 मोहन राम सिवाग शाखा का नाम: जोधपुर, नाम जाम सिवाग शाखा का नाम: जोधपुर, सोजारी 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कारेपन 686662606411 मोईन खान शाखा का नाम: कारेपन 686662606411 सोईन खान शाखा का नाम: करेपनी 088162005642 संजीव कुमार शाखा का नाम: करेपनी 686662606411 सोईन खान शाखा का नाम: करेपनी 6879362604565 विपीन ना शाखा का नाम: केरियान शाखा का नाम: केरियान शाखा का नाम: कोरियान 18181 का नाम: कोरियान 18181 का नाम: कोरियान 18181 का नाम: कोर्यान 18181 का नाम: लाल्यान	159862006175   पुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   प्रीना क्या शाखा का नाम: रावतस (672562606925   पुन्ताक खा शाखा का नाम: रावतस क्या शाखा का नाम: रावतस व्या शाखा का नाम: रावत व्या शाखा का नाम: सावडी (वर्ष क्या का नाम: सावडी का नाम: सावडी (वर्ष क्या का नाम: सावडी का नाम: सावडी (वर्ष क्या का नाम: सावडी (वर्ष क्या का नाम: सावडी का नाम: सावडी का नाम: सावडी (वर्ष क्या का नाम: सावडी (वर्ष का का नाम: सावडी
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000095 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर, सोवाती गेट 683162601576 सुक्तम राम शाखा का नाम: जोधपुर, पोचासनी आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, नाम सियाग शाखा का नाम: काम स्वात नाम नाम स्वात नाम नाम नाम स्वात नाम नाम नाम स्वात नाम नाम नाम नाम नाम नाम स्वात नाम नाम स्वात नाम नाम नाम नाम नाम स्वात नाम नाम स्वात स्वात नाम	159862006175   पुनेन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   पीना पीना   15986200519   पीना पीना   15986200519   पीना पीना   15986200519   पार्जेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   पुन्ताक खा   शाखा का नाम: रावतस   15062001031   हार्र सिंह   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभूताल मीना   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभूताल मीना   शाखा का नाम: सावीर   शाखा का नाम: सावार   शाखा का नाम:
785462000027 सुरेंद्र हंस   785462000095 सुरेंद्र हंस   785462000098 सुरेंद्र हंस   785462000099 सुरेंद्र सुरें	159862006175   मृतन्द्र विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   67256260925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   67256260925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   157262000150   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: सांदर्ज   451962000150   प्रभूताल मीना   शाखा का नाम: सांदेश   451962000150   प्रभूताल मीना   शाखा का नाम: सांदेश   864962600594   हितेष मानवांय   शाखा का नाम: सांदेश   87262002371   दिनश कुमार   शाखा का नाम: संगितवा   175262002371   स्वेचा का नाम: संगितवा   175262003388   प्रमुवा का नाम: संगितवा   175262003388   प्रमुवा का नाम: संगितवा   175262003889   प्रमुवा का नाम: संगितवा वाला   175262003889   प्रमुवा का नाम: संगितवा वाला   175262003889   प्रमुवा का नाम: संगितवा वाला   17526200389   प्रमुवा संगु संगु संगु संगु संगु संगु संगु संगु
785462000027 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस 785462000098 सुरेंद्र हंस शाखा का नाम: जोधपुर सोजाती गेट 683162601576 हुकमा राम शाखा का नाम: जोधपुर, जोयासनी आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, नायासनी आवास 682762601771 मीइन राम सियाग शाखा का नाम: जोधपुर, नायासनी आवास 682662600538 लिला प्रजापति शाखा का नाम: कार्यपन 6886626006411 मीईन खान शाखा का नाम: कार्यन 688626006411 मीईन खान शाखा का नाम: कर्योग 088162005642 सीजा कृमार शाखा का नाम: कर्योग 679362604565 कियोग ना शाखा का नाम: क्रीडम लाखी का शाखा का नाम: क्रीडम लाखी शाखा का नाम: क्रीडम राम शाखा का नाम: क्रीडम राम शाखा का नाम: कोट्य-तलवंडी 153962001563 गीरव गीरव गीरव गीरव शाखा का नाम: कोट्य-तलवंडी 153962001663 गीरव गीरव गीरव गीरव गीरव शाखा का नाम: कोट्य-तलवंडी 153962001663 गीरव गीरव गीरव गीरव गीरव गीरव गीरव गीरव	159862006175   मुनेन्द्र विजयवरायि   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   672562606925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावट, राजस्थान   350062001031   हर्ग सिंह   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: सादडी   451962000150   प्रभूलाल मीना   शाखा का नाम: साँचीर   88362002571   दिनेश कुमार   शाखा का नाम: साँचीर   शाखा का नाम: साँचीरवा   17526200332   पवन कुमार   शाखा का नाम: सीमलवाड़ा   43396200358   कारी लाल डामोर   शाखा का नाम: साँचीरवा   669362601038   मुदन लाल   स्वाचा का नाम: साँचीरवा   669362601038   मुदन लाल   स्वाचा का नाम: साँचित   साँचा का नाम:
785462000027 सुरेंद्र हंस   785462000095 सुरेंद्र हंस   785462000098 सुरेंद्र हंस   785462000099 सुरेंद्र सुरें	159862006175   मृत-द विजयवर्गीय   15986200519   मीना मीना   15986200539   राजेंद्र कुमार   शाखा का नाम: रावतसर   672562600925   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावतसर   1572620009150   मुस्ताक खा   शाखा का नाम: रावेंद्र राजस्थान   350062001031   हिर सिंह   शाखा का नाम: सांदेश   451962000150   प्रभूताल मीना   शाखा का नाम: सांवेंद्र   157262002571   दिनश कुमार   शाखा का नाम: सांवेंद्र   157262002371   स्तिरंश कुमार   शाखा का नाम: संगित्व   175262002371   स्तिरंश सिंगला   175262002371   स्तिरंश सिंगला   17526200332   यवन कुमार   शाखा का नाम: सीमलवाड़   433962003588   कारी लाल डामोर   शाखा का नाम: संवेंद्र   157262003358   प्रवा का नाम: सीमलवाड़   157262003358   प्रवा का नाम: सीमलवाड़   15726200358   157262003

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

692862601572 लालत शाखा का नाम: वरदा विजय